

Date: 08-08-2023

The Asst. General Manger The BSE Limited Phiroje Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort Mumbai – 400 001 (Scrip Code – 532776) Asst. Vice-President
The National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai – 400 051
(Scrip Code – SHIVAMAUTO)

Sub: Intimation to Stock Exchange regarding issuance of Notice in newspaper

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company hereby informs that a Notice to shareholder has been published in 'Business Standard' (National Daily Newspaper in English) and 'Business Standard' (Regional Daily Newspaper In Hindi) on August 08, 2023 pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and as amended from time to time.

We would also like to inform you that as per Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, we have also sent individual notices, to the shareholders, who have not claimed dividend for seven or more consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority during the financial year 2023-24.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you.

Yours truly,

For Shivam Autotech Limited

Preeti Digitally signed by Preeti Sharma
Sharma 17:02:04:0530'
Preeti Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
M.No. A32847

SHIVAM AUTOTECH LIMITED <u>www. shivamautotech.com</u> CIN: L34300HR2005PLC081531

Tel: 0124-4698700

Fax: 0124-4698798

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH, CHANDIGARH

(ORIGINAL JURISDICTION) COMPANY PETITION NO. CP (CAA) 26/Chd/Hry OF 2023

CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 56/Chd/Hry OF 2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013)

SECTIONS 230 & 232 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT

AND IN THE MATTER OF

ASG OVERSEAS PVT LTD & ORS

PETITIONER NO. 1/TRANSFEROR COMPANY **NOTICE OF HEARING OF PETITION**

A joint Petition under sections 230 & 232 of the Companies Act, 2013, read with section 66 and 52 of the Companies Act, 2013, the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, the National Company Law Tribunal Rules, 2016, and other applicable provisions, if any, for obtaining sanction to the Scheme of Arrangement of ASG Overseas Pvt Ltd, BPTP Parklands Pride Ltd, BPTP Resort Pvt Ltd, Countrywide Promoters Pvt Ltd, Delhi Strong Build Infrastructure Pvt Ltd, Garnish Colonisers Pvt Ltd, Gateway Infraprojects Pvt Ltd, Lunar Developers Pvt Ltd, Moonlight Buildmart Pvt Ltd, Remarkable Estate Pvt Ltd, Super Belts Pvt Ltd, Triangle Builders and Promoters Pvt Ltd, Well Worth Developers Pvt Ltd, Antariksh Construction Company Pvt Ltd, Anupam Towers Pvt Ltd, Ashirbad Buildwell Pvt Ltd, Brainwave Builders Pvt Ltd, Bright Star Builders Pvt Ltd, Business Park Builders Pvt Ltd, Business Park Developers Pvt Ltd, Business Park Overseas Pvt Ltd, Business Park Promoters Pvt Ltd, Delite Realtech Pvt Ltd, Designer Realtors Pvt Ltd, Digital SEZ Developers Pvt Ltd, Druzba Overseas Pvt Ltd, Elite Realtech Pvt Ltd, Eventual Builders Pvt Ltd, Excel Infraventures Pvt Ltd, Focus Builders Pvt Ltd, Fragrance Construction Pvt Ltd, GAG Constructions Pvt Ltd, Garland Infrastructure Pvt Ltd. Gitaniali Promoters Pvt Ltd. Glaze Buildcon Pvt Ltd. Glitz Builders and Promoters Pvt Ltd, Green Park Estates Pvt Ltd, Green Valley Housing & Land Development Pvt Ltd, Green Valley Towers Pvt Ltd, Grow High Realtors Pvt Ltd. IAG Promoters and Developers Pvt Ltd. Imagine Builders Pvt Ltd, Impartial Builders Pvt Ltd, Impower Infrastructure Pvt Ltd, ISG Estates Pvt Ltd, Jasmine Buildtech Pvt Ltd, KA Promoters & Developers Pvt Ltd, Merit Marketing Pvt Ltd, Native Buildcon Pvt Ltd, Passionate Builders Pvt Ltd, Perpetual Infracon Pvt Ltd, Poonam Promoters and Developers Pvt Ltd, Precision Infrastructure Pvt Ltd, Rainbow Promoters Pvt Ltd, Saraswati Kunj Infrastructure Pvt Ltd. Shalimar Town Planners Pvt Ltd. Shrinkhla Infrastructure Pvt Ltd, Sunaina Towers Pvt Ltd, Sunglow Overseas Pvt Ltd, Supergrowth Constructions Pvt Ltd, USG Buildwell Pvt Ltd, Vasundra Promoters Pvt Ltd. Visual Builders Pvt Ltd. Vivek Promoters Pvt Ltd. Westland Developers Pvt Ltd, BPTP Ltd, Logical Builders Pvt Ltd and Praya Buildtech Pvt Ltd, was presented by the Petitioner Companies on 5th July, 2023 and the said Petition is fixed for hearing on 21st September, 2023 at 10:30 A.M. before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench, Corporate Bhawan, Plot No. 4-B, Ground Floor, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send his intention, signed by him or his advocate, with his name and address to the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench, Corporate Bhawan, Plot No. 4-B, Ground Floor, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019 and to the Petitioners' Advocate, so as to reach the Bench and the Petitioners' Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

160019.

Date: 07.08.2023

Sd/-Kartikeya Goel, Advocate For Rajeev Goel & Associates Counsel for the Petitioners 785, Pocket-E, Mayur Vihar-II Delhi Meerut Expressway/NH-9 Delhi 110 091 e-mail: rajeev391@gmail.com Website: www.rgalegal.in

CÁPRIGLOBAL

CIN L65921MH1994PLC173469

Read, office: 502, Tower A. Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai 400013. | **Tel**: 91 22 43548200; **Fax**: 91 22 40888160 Email: secretarial@capriglobal.in, Website: www.capriloans.in

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of Capr Global Capital Limited (**"CGCL"/ "Company"**) will be held on Friday, September 1, 2023 a 04:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13,202 December 8, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD, CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the 29th AGM of the Company is being conducted through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/ OAVM) Facility, which does not require physical presence of Members at a commor venue. The deemed venue for the 29th AGM shall be Registered Office of the Company.

The Annual Report including the financial statements for the financial year ended March 31 2023 along with Notice of the 29th AGM will be sent only to those members, whose e-mai Idresses are registered with the Company / Link Intime India Pvt. Ltd., ("Registrar and Share Transfer Agent / RTA") or with the respective Depositary Participants in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2022-23 will also be available on the Company's Website a www.caprilaons.in, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of 29th AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ("remote e-Voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally the Company shall also provide the facility of e-Voting during the AGM. Detailed procedure fo remote e-Voting before the AGM / e-Voting during the AGM will be provided in the AGN

Members holding the shares in physical and de-mat form who have not registered their email addresses with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent or with the respective Depository Participants can get their email IDs registered with RTA by sending e-mail nt.helpdesk@linkintime.co.in, on or before Thursday, August 10, 2023 to receive the Notice of 29th AGM and Annual Report for the year 2022-23 through email and/ or attending the AGM through VC/ OAVM.

The Board of Directors in their meeting held on May 22, 2023, has recommended for consideration of the Shareholders a dividend of $\ref{logo}0.50$ (25%) per Equity Share of the face value of ₹2 each for the year ended March 31, 2023. The record date/cut-off date for the purpose of Dividend is August 18, 2023 and for e-voting, it is August 25, 2023, Accordingly f dividend is declared, it will be payable on or after Tuesday, September 5, 2023, to those Shareholders whose names are registered in the Register of Members of the Company as or Friday, August 18, 2023 and to the beneficiary holders as per the beneficiary list as on Friday August 18, 2023 provided by the depositories, subject to deduction of tax at source, where

The Company provides the facility to the Shareholders for remittance of dividend directly in electronic mode through National Automated Clearing House ("NACH"). Shareholders holding shares in physical form and desirous of availing facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number, to the Company or Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participants. In line with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, issued by the MCA, in case the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode, due to non-availability of their latest bank account details, the Company shall dispatch the dividend

warrant/cheque to such shareholder by post. Pursuant to Income Tax Act, 1961, ("the IT Act") as amended by the Finance Act 2020 dividend income will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to the Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the IT Act and amendments thereof. Shareholders are also requested to refer to the Notice of the 29th AGM for more details on process to be followed, if any, in this

The above information is being issued for the benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circula

The Notice of 29th AGM and Annual Report 2022-23 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

Date: August 7, 2023

For Capri Global Capital Limited Yashesh Bhatt Government of Kerala

Published Tenders from 03-08-2023 to 06-08-2023

Directorate of Survey and Land Record

Tender ID: 2023 DSLY 593157_1 * Survey Director * Digital Land Survey - Supply and commissioning of corporate * Closing Date: 21-Aug-2023 * PAC: Rs720000 Tender ID: 2023_DSLY_593137_1 * Survey Director * Supply and commissioning of corporate mobile connections in * Closing Date: 21-Aug-2023 * PAC: Rs2210000

https://etenders.kerala.gov.in for more details.

Ro.No:03-06/Aug/2023/PRD/(N)9

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

r No: 125, 126, 127/2023-24/KV JJM- RWSS to Ranni- Pazhavangadi- Vadasserkkara louses and commissioning., (2) JJM- Ranni- Perunad P. Pipelines at Nellimala, road restoration., (3) JJM- WSS to nain from Intake to proposed WTP at Kottakkakom and EMD: Rs. 1,00,000/-, Rs. 1,00,000/-, Rs. 1,00,000/-Tender fee: Rs. 9,759/-, Rs.9,759/-, Rs. 9,759/-

Last Date for submitting Tender: 22 08 2023 02:00:pm none: 04692600162 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Enginee KWA-JB-GL-6-967-2023-24 PH Circle, Pathanamthitta



TATA POWER (Corporate Contracts Department, 5th Floor Station B)
Tata Power, Trombay Thermal Power Station Chembur-Mahul Mumbai 400074, Maharashtra, India. (Board Line: 022-67175323, Mobile: 7208817950) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited inv

Manufacturing and supply of complete Head structure frame, mediate section and foot structure frame of Travelling water screen, Tata Power company Limited Chembur-Mahul Mumbai 400074 For detail NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Last date for receipt of request for issue of bid document is 31st August 2023 up to 1500 Hrs.

CHEMFAB ALKALIS LIMITED

CIN:L24290TN2009PLC071563

Regd. Office: Team House, GST Road, Vandalur, Chennai 600 048. Phone No: +91 44 22750323 Fax No: +91 44 22750860

NOTICE OF THE 14th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visuals Means ("OAVM") on Tuesday, 29th August 2023 at 10:00 AM (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 and other circular issued by SEBI from time to time ("SEBI Circulars"), to transact the business set out in the Notice calling AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. In compliance with relevant circular, the Notice of the AGM and the Standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022-2023, along with Boards Report Auditors Report and other documents required to attached thereto have been sent on 05th August 2023, to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository participants. The aforesaid documents are also available on the Company's Website at <u>www.chemfabalkalis.com</u> and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of CDSL

(agency for providing e-voting facility and e-voting system during AGM) i.e. www.evotingindia.com
The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the member from the date of circulation of this notice up to date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send email to ccalcosecy@drraoholdings.com

Instruction for E-voting and joining Meeting through VC/OAVM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). Members cast their vote electronically, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("E-voting")

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by electronically will be able to vote at the AGM. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility Information and instruction including details of the user id and the password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail as well as available in Annual Report. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. The manner of e-voting and shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the company: www.chemfablkalis.com an on the website of the Stock exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL www.evotingindia.com

The E-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of remote E-voting: 09:00 AM (IST) on Saturday, 26th August 2023

End of remote E-voting: 05:00 PM (IST) on Monday, 28th August 2023

The E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by the CDSL upon the expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the registrar of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Tuesday 22nd August 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and to cast AGM e-voting.

The Board of Directors have recommended the final dividend of Rs.1.25/- per equity share subject to the approval of the shareholders in the upcoming Annual General Meeting of the Company. Further, the Company has fixed 22nd August 2023, as the Record date for the purpose of payment of the final dividend for the Financial Year 2022 -23. Also, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd August 2023 to 29th August 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM

Manner of registering/updating email address is as below:

Members holding shares in physical mode, who have hot registered/updated their email address with the Company, are requested to register/update their email address with the depository Participants with the whom they maintain their demat accounts. After due verification, the Company/CDSL will forward their login credentials to their registered email address • Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which available on the Company's website and CDSI_website

• Such members may cast their vote using e-voting instruction, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lowel Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43

By order of the Board of Directors

: Chennai : 05.08.2023

B. Vignesh Ram Company Secretary and Compliance officer

MONTE CARLO

It's the way you make me feel

Monte Carlo Fashions Limited

(CIN: L51494PB2008PLC032059) Registered/Corporate Office: B-XXIX-106, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-141003, Punjab Tel.: 91-161-5048610-40, Fax: 91-161-5048650,

Email: info@montecarlo.in, Website: http://www.montecarlocorporate.com

Statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023

	(₹ in iakns)							
Sr.	Particulars	Standalone Consol			Consolidated	solidated		
No.		3 months ended 30.06.2023 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31.03.2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2022 (Unaudited)	Previous year ended 31.03.2023 (Audited)	3 months ended 30.06.2023 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31.03.2023 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2022 (Unaudited)
	Daniel de la constant	·	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	, ,	+
1	Revenue from operations	13,877	23,672	11,287	111,771	13,877	23,672	11,287
2	Profit/(Loss) for the period (before tax)	(1,549)	2,170	(534)	17,243	(1,550)	2,149	(534)
3	Profit/(Loss) for the period (after tax)	(1,159)	2,003	(392)	13,274	(1,160)	1,982	(392)
4	Total comprehensive income/(loss) for the period	(1,158)	1,817	(370)	13,085	(1,159)	1,796	(370)
5	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 10 each)	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073
6	Other equity	-	-	-	75,603	-	-	-
7	Earnings/(loss) per share (face value of ₹ 10 each) (not annualised for the quarters)							
	(a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	(5.59) (5.59)	9.66 9.66	(1.89) (1.89)	64.03 64.03	(5.59) (5.59)	9.56 9.56	(1.89) (1.89)
Notes:								

Place: Ludhiana

Date: 7 August 2023

Place

1. The above consolidated and standalone financial results for the quarter ended 30 June 2023 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by Board of Directors in their respective meeting held on 07 August 2023. These financial results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended June 30, 2023. The full format of the unaudited quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on company's website (www.montecarlocorporate.com).

3. The figures of the previous quarter ended 31 March 2023 as reported in these standalone financial results $are the \ balancing \ figures \ between \ audited \ figures \ in \ respect \ of full \ financial \ year \ and \ the \ published \ year \ to$ date figures upto the third quarter of the previous financial year. Also the figures upto the end of the previous third quarter were only reviewed and not subject to audit.

For and on behalf of Board of Directors

Jawahar Lal Oswal

Chairman and Managing Director (DIN: 00463866)











SHIVAM AUTOTECH LIMITED

Registered Office: 10, 1st Floor, Emaar Digital Greens, Tower A, Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Harvana-122102.

Email: info@shivamautotech.com; Website: www.shivamautotech.com Tel: 0124-4698700; Fax: 0124- 4698798; CIN: L34300HR2005PLC081531

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with relevant circulars and amendments thereto ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend for a period of seven years to IEPF authority and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to the Demat Account of the IEPF Authority

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their latest available address whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action(s). The Company has also uploaded complete details of the concerned shareholders on its website at **www.shivamautotech.com** under the "Investor Services" section for information and necessary action by the Shareholders.

Shareholders whose dividend is unclaimed for the financial year 2015-16 and onwards are requested to claim the unclaimed dividend on or before November 04,2023 by sending a formal request letter duly signed by all the joint holders along with (i) Self attested copy of PAN card (ii) Certified copy of Address Proof, mentioning the Email ID (if any), the telephone contact no.(s) and the Cancelled blank Cheque bearing name of the shareholder, to the Company Secretary at Registered Office: 10, 1st Floor, Emaar Digital Greens, Tower A, Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Haryana-122102, Tel No.: 0124-4698700 or email the documents at cs@shivamautotech.com

In case no valid claim in respect of the equity shares is received on or before November 04,2023, the Company would initiate necessary action for transfer of shares to the IEPF without any further notice, in accordance with the rules.

Further, on completion of necessary formalities if you are holding shares in physical form, the original share certificate(s) which stand registered in your name will automatically be cancelled and deemed non-negotiable. If you are holding shares in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend amount and the shares transferred including all benefits accruing on shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed form IEPF-5 available at www.iepf.gov.in and following the procedure prescribed under the rules.

In order to receive the correspondences, if any from the Company in a timely manner, shareholders are requested to register their e-mail addresses with the RTA (in case of shares held in physical form) by sending a request on admin@mcsregistrars.com and the shareholders (in case of shares held in dematerialized form) please contact your respective Depository Participant(s).

In case Shareholders have any queries on the subject matter or the Rules, they may write to the Company at email ID cs@shivamautotech.com or call at Tel No. 0124-4698700 or contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent- M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020; Tel No. : 011-41406149-52; email id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

For Shivam Autotech Limited Preeti Sharma **Company Secretary**

Rainbow[®] Children's Hospital

Date: August 07, 2023

Place: Gurugram

RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LIMITED

(formerly known as 'Rainbow Children's Medicare Private Limited') CIN: L85110TG1998PLC029914

Registered Office: 8-2-120/103/1, Survey No. 403, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad,

Corporate Office: 8-2-19/1/a, Daulet Arcade, Karvy lane, Road No.11, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana - 500 034. Tel: +91 40 4969 2244, e-mail: companysecretary@rainbowhospitals.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

(Rs. in millions)

(Rs. in millions)

		STANDALONE			
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30 June 2023	Year ended 31 March 2023	Quarter ended 30 June 2022	
140.		Unaudited	Audited	Unaudited	
1(a)	Total Revenue from Operations	2,703.50	11,139.90	2,227.53	
1(b)	Other Income	75.93	312.29	64.07	
	Total Income	2,779.43	11,452.19	2,291.60	
2	Net Profit for the period/year (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	526.50	2,774.64	501.42	
3	Net Profit for the period/year before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	526.50	2,728.34	501.42	
4	Net Profit for the period/year after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	393.29	2,058.93	375.95	
5	Total Comprehensive Income for the period/year [comprising profit for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	394.18	2,062.54	380.71	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,015.02	1,015.02	1,015.02	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		9,868.86		
8	Earnings per Share (EPS) (of Rs. 10 each) (Not annualized for the quarter)				
l	a) Basic EPS (in Rs.)	3.87	20.40	3.72	
	b) Diluted EPS (in Rs.)	3.87	20.40	3.72	

		CONSOLIDATED				
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30 June 2023	Year ended 31 March 2023	Quarter ended 30 June 2022		
140.		Unaudited	Audited	Unaudited		
1(a)	Total Revenue from Operations	2,871.65	11,735.74	2,371.52		
1(b)	Other Income	78.55	308.65	60.33		
	Total Income	2,950.20	12,044.39	2,431.85		
2	Net Profit for the period/year (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	556.24	2,817.79	519.96		
3	Net Profit for the period/year before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	556.24	2,817.79	519.96		
4	Net Profit for the period/year after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	414.90	2,123.77	387.61		
5	Total Comprehensive Income for the period/year [comprising profit for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	415.82	2,128.11	392.89		
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,015.02	1,015.02	1,015.02		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		9,584.09			
8	Earnings per Share (EPS) (of Rs. 10 each) (Not annualized for the quarter)					

b) Diluted EPS (in Rs.)

Place: Hyderabad

Dated: 07 August 2023

a) Basic EPS (in Rs.)

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07 August 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3 The full format of the Quarterly/Annual Financial Results is available on the stock exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.rainbowhospitals.in. For and on behalf of the Board of Directors o

> Rainbow Children's Medicare Limited Dr. Ramesh Kancharla

20.89

20.89

4.04

4.04

Chairman and Managing Director DIN: 00212270

Adfactors 210

3.78

3.78

Company Secretary Membership No.: A20491

Ref. No.: SS/SSC/Brown Sugar/2022-23/601

Dated: 07.08.2023 **SHORT TERM TENDER NOTICE**

E-tenders are invited from bonafide traders having experience in Sugar trading for sale of Brown Sugar and Rori Sugar stored at Mohiuddinpur Pipraich and Munderwa units on 19.08.2023.

Tender documents and Terms & Conditions for sale of Brown Sugar & Rori sugar can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in or corporation website www.upsugcorp.in. Tender Fee of Rs. 1000/- +18% GST=1180 and earnest Money of Rs. 2,00,000/- to be deposited through RTGS only in Sugar Corporation account Tenders without earnest money will not be accepted.

The undersigned reserves the right to cancel one or all the tenders without assigning any reason MANAGING DIRECTOR

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार प्रदीप कुमार, भरत सिंह और जमोत्री देवी को 18.04.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HDHLLAJ00486354 (ਭੀਪਚਪਾਨਪਾਲ का पूर्व लॅन कोड 00044598) की राशि रू.28.29.677.26 (रूपये अट्टाईस लाख उनतीस हजार छह सौ सतहत्तर और छब्बीस पैसे मात्र) और 12.04.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 03.08.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.28,29,677.26 (रूपये अट्टाईस लाख उनतीस हजार छह सौ सतहत्तर और छब्बीस पैसे मात्र) 12.04.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अपने सभी छत अधिकारों के साथ बिल्ट अप उत्तरी भाग तीसरी मंजिल (एलएचएस), संपत्ति बियरिंग प्लॉट नंबर 48 पर समानुपातिक एरिया माप 75 स्क्वेअर यार्डस के साथ, ब्लॉक-एच में मोहन गार्डन से पहचाने जानेवाली आबादी में गाँव नवादा के रेवेन्यु एस्टेट में स्थित खसरा नंबर 410 में से, उत्तम नगर, दिल्ली-110059. स्टिल्ट फ़्लोर पर सामान्य कार पार्किंग स्थान के साथ भूमि/प्लॉट में समानुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य और इमपार्टीबल स्वामित्व अधिकारों के साथ और निम्ननसार परिबद्ध है:

: प्लॉट एच -48 का हिस्सा पश्चिम : सड़क 20 फीट

प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 03.08.2023 स्थान : दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड

उत्तर : अन्य की संपत्ति

RELIGARE ISME LOANS सीआईएन नं : U74999DL1995PLCO64132

दक्षिण : आरएचएस का युनिट और सड़क 20 फीट

परिशिष्ट-IV | नियम 8(1) देखें | अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहरताक्षरकर्ता ने **रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड,** जिसका **पंजीकृत कार्यालय :** 1407, 14व तल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में तथा जिसका निगमित कार्यालय : 7व तल, मैक्स भवन, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेज 3, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, न दिल्ली - 110020 में स्थित है (यहां इसमें इसके उपरांत "आरएफएल" के रूप में संदर्भित) प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के के प्रावधान अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांत एक मांग सूचना दिनांकित 11-04-2023 निर्गत की थी, जिसमें **राम कुमार पुत्र नेम चंद, निवासी** मकान नं. 148/03, गढ़ी ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली—110065, अन्य पता : राम कुमार पुत्र नेम चंद निवासी मकान नंबर 176, गढ़ी ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली—110065, अन्य पता : राम कुमार पुर नेम चंद्र, निवासी 176, खसरा नं 83 मिन, का भाग, ग्राम गढी, झरिया मरिया, नई दिल्ली-11006 अन्य पता : राम कुमार पुत्र नेम चंद्र, द्वारा एम.सी.डी. जोनल कार्यालय, कक्ष सं.–37, द्वितीय तल ग्रीन पार्क, दिल्ली—110049, 2. राज बाला पत्नी राम कुमार, निवासी मकान नं 148/03, गढ़ी ईस्ट **ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065,** अन्य पता : राज बाला पत्नी राम कुमार, निवासी

का ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने व कहा गया था। 'चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वार ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम् विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत तथ माननीय सीएमएम, दक्षिण पूर्व जनपद, साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकि 10-जुलाई-2023 के अनुपालनांतर्गत 04-अगस्त-2023 को अप. 04:30 बजे भौतिक अधिग्रहण कर लिया है ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **11–04–2023**

176, गढ़ी ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली110065 को, सूचना में अंकित राशि **रु**. **31,69,318.02/-**

'**आरएफएल''** के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऋण मुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।"

े अनसार देय **रु. 31.69.318.02 /—** की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज एवं अन्य श

संपत्ति की अनुसूची :

"संपत्ति सं. 176 के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका भिम मापन क्षेत्र 135 वर्ग गज है जो खसर सं 83 मिन का भाग है गाम गढ़ी खरिया मरिया की लाल डोरा आबादी के अंदर नई दिल्ली—110065 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व- मकान नं. 177, पश्चिम- मकान नं. 175 उत्तर— गली, दक्षिण— गली।"

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08-08-2023

दिनांक: ८ अगस्त २०२३

स्थानः नई दिल्ली

हस्ताः / — प्राधिकृत अधिकारी कृते मैसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड

(IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-2018/11773)

जीटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, एल 41, क्नाट सर्कस, नई दिल्ली–110001

10 कॉमर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

संकल्प प्रफेशनल (आरपी)

फॉर्म जी अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण 10। कॉमर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में ई—कॉमर्स उद्योग में प्रचालनरत (दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के तहत)

क्रंबंधिन विवरण

ं कॉमर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड आईएन: U72200KA2015PTC079186 र्क, प्रथम तल, ब्लॉक एल अम्बैसी टैक तेज, आउटर रिंग रोड, देवराबिसनहल्ली लोर, कर्नाटक–560103 ww.shopx.in नी अपने मोबाइल एप्लीकेशन "ShopX" के यम से बिज़नेस टू बिज़नेस ("बी2बी") मॉडल मोबाइल, संबंधित इलैक्ट्रोनिक्स, एफएमसीजी विभिन्न लाइफ स्टाइल उत्पादों की ट्रेडिंग में ग्न थी। कंपनी ने विभिन्न ब्रांडों/ ताओं को डिजीटल मार्केटिंग सेवाओं सहित वारों और विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएँ भी
तेज, आउटर रिंग रोड, देवराबिसनहल्ली लोर, कर्नाटक–560103 ww.shopx.in नी अपने मोबाइल एप्लीकेशन "ShopX" के यम से बिज़नेस टू विज़नेस ("बी2बी") मॉडल मोबाइल, संबंधित इलैक्ट्रोनिक्स, एफएपसीजी विभिन्न लाइफ स्टाइल उत्पादों को ट्रेडिंग में ग्न थी। कंपनी ने विभिन्न ब्रांडों, ताओं को डिजीटल मार्केटिंग सेवाओं सहित दारों और विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएँ भी
नी अपने मोबाइल एप्लीकंशन "ShopX" के यम से बिज़नेस टू बिज़नेस ("बी2बी") मॉडल मोबाइल, संबंधित इलैक्ट्रोनिक्स, एफएमसीजी विभिन्न लाइफ स्टाइल उत्पादों की ट्रेडिंग में ग्न थी। कंपनी ने विभिन्न ब्रांडों/ तिंताओं को डिजीटल मार्केटिंग सेवाओं सहित वारों और विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएँ भी
यम से बिज़नेस दू बिज़नेस ("बी2बी") मॉडल मोबाइल, संबंधित इलैक्ट्रोनिक्स, एफएमसीजी विभिन्न लाइफ स्टाइल उत्पादों की ट्रेडिंग में ग्न थी। कंपगी ने विभिन्न ब्रांडों/ त्ताओं को डिजीटल मार्केटिंग सेवाओं सहित वारों और विक्रेताओं को एंड दू एंड सेवाएँ भी
न की। रिंट लेनदार और इसकी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों 1. में बिस्तृतविवरणभीवेबसाइटwww.shopx.in "Insolvency Procedures" टैब के त अपलोड किए गए "Teaser" में भी लखित हैं।
v
.09 करोड़ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए
नहीं
v.shopx.in पर ''Insolvency Procedures'' देखें अथवा IP.10iCSPL@in.gt.com पर करें
v.shopx.in पर "Insolvency Procedures" के तहत उपलब्ध अभिरुचि की अभिव्यक्ति आई) प्रक्रिया दस्तावेज देखें अथवा OiCSPL@in.gt.com पर ईमेल करें
अगस्त, 2023
सितंबर, 2023
सितंबर, 2023
10iCSPL@in.gt.com
1

सार्वजनिक सूचना जान जनता को एतर्द्वारा स्थापत किया जाती है कि, हमार क्लाइट मसस मुथूट फाइनास्त्र लि. द्वारा 08th, 09th, 10th, 11th & 12th August 2023 को (बंधक आमूषणों की—एनपीए जायोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थितित कर दी गई है और अब 12th, 13th, 14th, 15th & 16th September 2023 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

ध्यान दें: नकली / कम शुद्धता वाले आभूषणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोहली एण्ड सोब्दी एडवोंकेट ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करवे अपने गिरवी रखे गहनों को छुझ सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com य 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

Since 1921

रूडकी शाख 176, नेहरू नगर, देहरादून रोड, रूड़की-247667, उत्तराखंड राज्य

परिशिष्ट IV-A [नियम 8(6) के परंतुक देखें] अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक∠प्रभारित है, का **रचनात्मक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार **तमिलनाड** मर्केटाइल बैंक लिमिटेड, रूड़की शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है", "जो कुछ भी है'' और ''दायित्व रहित'' आधार पर कर्जदार श्री नईम अहमद से तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, **शाहदरा शाखा** (प्रतिभूति लेनदार) – की बकाया राशि रु. **11,49,349.18** दिनांक 31.07.2023 तक और याज एवं खर्चे इत्यादि सहित की वसूली हेतु दिनांक **14.09.2023** को बेचा जाएगा। **आरक्षित मूल्य रुपये** 18,28,500/- और घरोहर राशि रु. 1,82,850/-मात्र) होगी।

साम्यिक बंधक रिहायशी भूमि विस्तारित क्षेत्रफल 3561.56 वर्ग फीट और मकान बिल्डिंग, क्षेत्रफल 1484 वर्ग फीट की सीमा तक निर्माण (जी.एफ.-1484 वर्ग फीट) खसरा नंबर- 285, खाता नंबर- 23, सलेमपुर राजपुताना, रसूलपुर गांव, रूड़की-247667. परगना- भगवानपुर, तहसील-रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित, यह सम्पत्ति श्री नईम अहमद के नाम पर है, उत्तर में – खाली भूमि, दक्षिण में – खाली भूमि, पूरब में मकान की संपत्ति, पश्चिम में −15 फीट सड़क

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदारों की वेबसाइट **www.tmb.in** में दिए ग लिंक को देखें।

दिनांक : 05.08.2023, स्थान : रुड़की

विवरण

प्लांट व मशीनरी मदें

(इसमें पुराने एयर कंडीशनर्स,

के पास), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया

फेज- ।। नई दिल्ली-110020

अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक: 08.08.2023

स्थान: दिल्ली

प्रस्तावित नीलामी की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:

पंखे, अलगीरा, फर्नीचर, इलैक्ट्रिकल से शाम 5.00 (5 मिनट उपकरण, जनरेटर्स आदि शामिल हैं) एफ–38/2, (मारूति सर्विस स्ट्रेशन विस्तार के साथ)

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि रूड़की शाखा

आईबीसी, 2016 के तहत ई—नीलामी बिक्री सूचना

आईबीसी, 2016 के तहत बिक्री सूचना

मैसर्स दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापकता में)

CIN:U26960DL1998PTC092946

पंजी. कार्या. : एफ-38 / 2, (मारूति सर्विस स्टेशन के पास), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,

. फेज— । ।, नई दिल्ली—110020

परिसमापक का कार्यालय : बी-2 / 42, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089

एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापकता में) की परिसंपत्तियों की बिक्री। प्लांट व मशीनरी हेत

ई—नीलामी की तिथि व समय

दिनांक : 23.08.2023

समय : दोपहर 3.00

जांच की तिथि: 21.08.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक परिसमापक की पूर्व सूचना के साथ

र्डओआई जमा करने की अंतिम तिथि: 21.08.2023 को शाम 5.00 बजे तक

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट IV नई दिल्ली के द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा **नैसर्स दुगलू**

-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी

1. ई—नीलामी ''जहां है जैसी है'' , ''जो है जैसी है'' , ''जहां कहीं भी है'' और ''बिना रिकोर्स'' आधार के आयोजित की जाएगी क्योंकि ऐसी बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैस्स् ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. (Inttps://ncitauction

2. प्लांट व मशीनरी के लिए बोली निर्धारित प्रपत्र में पसिमापक को ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। पूर्ण ई—नीलामी

2. स्ति प्रभागित करिष्वार्था निवारित अपने ने नातान्य काला स्ति के ना वाहि पूर्व इन्यार्थित करित्त नियम व शर्तों के साथ बोली फॉर्म वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net रं डाउनलोड किए जा सकते हैं। संपर्क : श्री प्रवीण +91-97227788 28, ई-मेल praveen.thevar@auctiontiger.net,nclt@auctiontiger.net/support@autiontiger.net

3. परिसमापक को उसपर बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई—नीलामी से पहले किसी संपत्ति या भाग को

वापस लेने या ई—नीलामी को आगे बढ़ाने / रदद करने / खारिज करने, किसी या सभी बोलियों को स्वीका

4. बिक्री ऋणशोधन व दिवालियापन कोड, 2016 और उसके तहत बने विनियमों के प्रावधानों का विषय होगी ।

auctiontiger.net) के माध्यमें से वारंटी और सुविधाओं के किसी प्रकार के बिना आयोजित की गई है।

आरक्षित मूल्य (रु.)

रु. 3,50,000 ∕

रुपए तीन

रु. 35,000 ∕

''जहां कहीं भी है'' और ''बिना रिकोर्स'' आधार के आयोजित की

रुपए पैंतींग

हजार केवल

प्राधिकृत अधिकारी,

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 2/28, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघट्टा, बेंगलोर-

<u>प्रादेशिक शाखा कार्यालय</u> : 16/12 दूसरा तल, ख्ल्यू.ई.ए., आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

त्रबकि आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटर औ बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा किए गप चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को **गैर-निष्पादित परिसंपति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि **जना स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक प्रत्यामूत ऋणदाता होने के नाते, और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **मांग सूचना** जारी कर कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचना की दिनांक से **60 दिनों** के भीतर मविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचना नहीं पहुंच सकी।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	प्रवर्तित होने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की दिनांक और मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि रुपये में / तक
1	(1) मैसर्स आयूषी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने मालिक श्री राजेंद्र प्रसाद (आवेदक) द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री राजेंद्र प्रसाद (उधारकर्ता), 3) श्रीमती आशा रानी (गारंटर)	ऋण खाता सं. 4512944000790 ऋण राशि : रु. 50,00,000/–	प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण: भाग—''अ'' — दृष्टिबंधक अचल परिसंपत्तियां : सभी कच्चे माल और खाते की पुस्तकों में स्टॉक पर और प्राप्तियों पर और कंपनी के व्यापार परिसरों के ऋण बुक यानी, मैसर्स आयूषी इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्यालय सं. ए—168, शास्त्री नगर, नार्थ वेस्ट दिल्ली—110052 भाग—''ब'' — बंधक अचल संपत्तिय : अनुसूची संपत्ति—1— संपत्ति विवरण : श्री गाजेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह और श्रीमती आशा रानी द्वारा स्वामित्व केवल भूतल बिना छत अधिकारों निर्मित संपत्ति धारक सं.ए—168 का भाग, पुराना सं. ई—15—ए, मापक क्षेत्र 56 वर्ग गर्ज (कुल मापक क्षेत्र 150 वर्ग गर्ज में सम). स्थित शांति नगर, दिल्ली—110052, सीमांकन : पूर्व : संपत्ति का भाग, पश्चिम : 30 फुट सड़क, उत्तर : संपत्ति का भाग, दक्षिण :संपत्ति का भाग, पश्चिम : संपत्ति का भाग, दक्षिण :संपत्ति का भाग	मांग सूचना दिनांक	रू. 50,13,881/— (रुपये पचास लाख तेराह हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) दिनांक: 04.08.2023 तक
2	(1) श्री अमान खान, पुत्र मोहम्मद कमर खान (आवेदक), 2) श्रीमती शहनाज, पत्नी श्री मोहम्मद अमर खान (सह–उधारकर्ता)	ऋण खाता सं. 4793942000991 ऋण राशि : रु. 25,70,000/–	प्रत्यभूत पिरसंपत्तियों का विवरण—बंधक अचल संपत्ति : अनुसूची संपत्ति : संपत्ति विवरण : श्री अमान खान , पुत्र मोहम्मद कमर खान द्वारा स्वामित्व मकान सं. 1, मापक क्षेत्र 250 वर्ग गज कवर्ड क्षेत्र 100 वर्ग गज, खाता सं. 00068, खसरा सं. 440, स्थित ग्राम फितयाबाद निथोरा, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, सीमांकनः पूर्वः रास्ता 20 फुट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: अन्य का प्लॉट	एनपीए की दिनांक 01.08.2023 मांग सूचना दिनांक 05.08.2023	रू. 26,49,581/— (रुपये छब्बीस लाख उनचास हजार पांच सौ इक्यासी मात्र) दिनांक: 04.08,2023
3	(1) मैसर्स गोयल सिमेंट एजेंसी, अपने मालिक श्री श्रीकांत गोयल (आवेदक) द्वारा प्रतिनिधित्व , 2) श्री श्रीकांत गोयल (उधारकर्ता), 3) श्री बुज मोहन गोयल (गारंटर), 4) श्रीमती अंजू गोयल (गारंटर)	ऋण खाता सं. 45128640001258 ऋण राशि : रू. 1,00,00,000/–	प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण: भाग-''अ'' – दृष्टिबंधक अचल परिसंपत्तियां: सभी कच्चे माल और खाते की पुस्तकों में स्टॉक पर और प्राप्तियों पर और कंपनी के व्यापार परिसरों के ऋण बुक यानी, मैसर्स गोयल सिमेंट एजेंसी, दुकान सं. 22, मिठापुर चौक,दिल्ली –110044 भाग-''व'' – बंधक अचल संपत्तिय: अनुसूची संपत्ति—1— संपत्ति विवरण: श्रीमती अंज् गोयल, पत्नी श्री बृज मोहन गोयल द्वारा स्वामित्व निर्मित संपत्ति धारक सं.ए—7, भूतल पुर, प्रथम तल, और तीसरा तल, संग संपूर्ण छत अधिकार मापक 167.5 वर्ग गज, निहित खसरा सं. 178/2, और 250, स्थित विस्तारित आबादी ग्राम टिगरी(अब टिगरी एक्सर्टेशन सं ज्ञात) और तहसील हौज खास (मेहरौली)नई दिल्ली—110062, सीमांकन: पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: प्लॉट सं 7, उत्तर: बी.एस.एफ की सीमा दिवाल, दक्षिण: 20 फुट चौड़ी सङ्क	एनपीए की दिनांक 01.08.2023 मांग सूचना दिनांक 05.08.2023	रू. 90,96,294/— (रुपये नब्बे लाख छियानबे हजार दौ सौ चौरानबे मात्र) दिनांक : 04.08.2023

सिलिए जैसा कि कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया है, उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के **६० दिनों** के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम नंबर 6 में दिखाए गए कुल राशि का भुगतान करने का आहवान किया गया है क्योंकि उक्त राशि संबंधित ऋण खाते के संबंध में कॉलम नंबर 6 में वर्णित दिनांक के अनसार देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कल राशि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भगतान की दिनांक तक देय हो सकती है. का भगतान नहीं किया जाता है, तो **जना स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड** को कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर प्रत्यामृत ब्याज को प्रवर्तीत करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाएगा कृपया ध्यान वें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाता है जैसा कि कानुन के तहत उक्त वित्तीयों के उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के विरुद्ध **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उपलब्ध है, आपसे यह भी अनुरोधि किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त प्रतिभृति के निपटान या उससे निपटने या प्रत्याभृत रूणेदाता की पूर्व सहमति के बिना प्रत्याभूत परिसंपत्ति के बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से राका / निषद्ध किया जाता है।

बोली वृद्धि

रु. 10,000

रु. दस

हजार केवल)

हस्ता. / – प्रदीप उपाध्याय

(कंपनी में परिसमापक)

परिसमापक, दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

रेमेड लैब्स लिमिटेड

CIN: L24111UP1992PLC014240

पंजीकृत कार्यालयः 103 एम्पेरर 1, सुपरटेक इमरल्ड कोर्ट, सेक्टर 93ए, नोएडा, उप्र - 201304 बेक्साइटः <u>www.raymedlab.com</u> ई.मेलः <u>raymedlabs@rediffmail.com</u> दूरभाष नं.: 0120-2426900, 9412700300

31वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतदारा सचना दी जाती है कि **रेमेड लेब्स लिमिटेड** (कंपनी) के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) कंपनी के पंजीकत कार्यालय 103 एम्पेरर 1, सुपरटेक इमरल्ड कोर्ट, सेक्टर 93ए, नोएडा, उप्र - 201304 में **शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे** भामास आयोजित होगी।

ई-मेल पता का पंजीकरण/अद्यतन कराने का तरीका: . डेमैट प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अब तक अपने ईमेल आईडी का पंजीकरण/अद्यतन नहीं कराया है उनसे डिमैटेरियलाइज्ड

शेयरों के मामले में एनएसडीएल/सीडीएसएल (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों से अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण हेतु पैन कार्ड एवं पता के साक्ष्य की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ भलीभांति हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र **बीटेल फाइनैंशियल कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड** पता 99 मदनगीर, बी/4, लोकल शॉपिंग सेंटर, दादा हरसुख दास मंदिर के निकट नई दिल्ली-110062 (आरटीए) के पास भेजने अथवा हमारे आरटीए के पास <u>beetalrta@gmail.com</u> पर ईमेल लिखने का अनुरोध किया जाता है सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर दूर (रिमोट) से वोट डालने का अवसर उपलब्ध होगा। रिमोट ई-वोटिंग 29 अगस्त, 2023 (सुबह 09.00 बजे) से शुरू होगी एवं 31 अगस्त, 2023 (अपराहन 05.00 बजे) तक जारी रहेगी। ई-वोटिंग के उद्देश्य हेत् अंतिम तारीख 25 अगस्त, 2023 होगी। भौतिक रूप से शेयरघारण रखने वाले शेयरघारकों द्वारा अथवा जिन शेयरघारकों ने अपने ईमेल आईडी का पंजीकरण नहीं कराया है उनके द्वारा अथवा जिन व्यक्तियों ने सूचना के भेजे जाने के बाद शेयरों का अधिग्रहण किया है एवं कंपनी के सदस्य बेने हैं उनके लिए वोट डालने का तरीका एजीएम की सचना में उपलब्ध है। ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन के तहत एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों के पंजीयक तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 26 अगस्त, 2023 से शुक्रवार 1 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

कंपनी एजीएम के दौरान बैलट प्रक्रिया के जरिए बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के बाद में सदस्य बैठक में भागीदारी कर सकते हैं परंतु उन्हें बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन सदस्यों के नाम अंतिम तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज हैं. वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ साधारण बैठक में वोट डालने की सुविधा पाने के पात्र होंगे।

ऊपर उल्लेखित 31वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट यानी <u>https://www.raymedlab.com/investor-desk/</u> annual-reports/ तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com_ पर

कृते रेमेड लैब्स लिमिटेड हस्ता/-

तारीखः 07.08.2023 स्थानः नोएडा

अजय गोयल पर्णकालिक निदेशक डीआईएनः 02636418

(अन्तरक कंपनी 2/आवेदक कंपनी 2

SHIVAM

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टावर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स. सेक्टर-61.

गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम–122102, हरियाणा ई-मेलः info@shivamautotech.com; वेबसाइटः www.shivamautotech.com

टेलीफोनः 0124-4698700: फैक्सः 0124-4698798: सीआईएनः L34300HR2005PLC081531

सूचना

विषयः कम्पनी के समता अंशों का

IP Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01415/2018-19/12233
Mobile: 9811130194 | Email: pradeepupadhyayibbi12233@gmail.com

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) एवं विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा. संपरीक्षा. अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 के विनियमन 6 के साथ पठित प्रासंगिक परिपत्रों एवं संशोधनों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। इस नियम में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, सात वर्षों की अवधि से अदत्त अथवा गैर-दावाकृत लागांश को आईइपीएफ प्राधिकरण को तथा ऐसे अंशों जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश अदत्त अथवा गैर-दावाकृत हों, को आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में अंतरित करने हेतु प्रावधान शामिल है।

कम्पनी ने सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके अंश नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई(यों) हेतु आईइपीएफ में अंतरित होने हेतु संभाव्य हैं, को उनके नवीनतम पंजीकत पते पर व्यक्तिगत संवाद भेजा है। कम्पनी ने जानकारी एवं अंशधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेत सम्बद्ध अंशधारकों का सम्पूर्ण विवरण भी अपनी वेबसाइट www.shivamautotech.com पर 'इन्वेस्टर सर्विसेज' अनुभाग के अंतर्गत अपलोड कर दिया है।

ऐसे अंशधारक जिनके लाभांश वित्तीय वर्ष 2015–16 के उपरान्त से गैर-दावाकृत हैं, से आग्रह है कि गैर-दावाकृत लाभांश का दावा 04 नवम्बर, 2023 को या उससे पर्व, सभी संयक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक अनरोध पत्र के साथ **(i)** पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (ii) ईमेल आईडी (यदि कोई हो) एवं टेलीफोन संपर्क संख्या(ओं) का उल्लेख करते हुए पता प्रमाण की प्रमाणित प्रति तथा रद्द किया गया चेक जिसपर अंशधारक का नाम हो, कम्पनी सचिव को पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, एमार डिजिटल ग्रीन्स, टावर-ए, सेक्टर-61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122102 टेलीफोन नं: 0124-4698700 पर अथवा दस्तावेजों को cs@shivamautotech.com पर ईमेल भेजकर कर लें।

यदि 04 नवम्वर, 2023 को या उससे पूर्व समता अंशों से सम्बद्ध कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कम्पनी, नियमों के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईइपीएफ को शेयरों के अंतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करेगी।

इसके अतिरिक्त, यदि आप भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं तो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात मुल अंश प्रमाणपत्र(ऑ) जो आपके नाम पर पंजीकृत है स्वतः रद्द हो जाएगा और अपरक्राम्य माना जाएगा। यदि आप डीमैट तौर पर अंश धारण करते हैं, तो कम्पनी आपके डीमैट खाते में मौजूद अंशों को आईइपीएफ के पक्ष में अंतरण हेतु कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ में अंतरित लाभांश राशि एवं समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ प्राधिकरण से गैर-दावाकृत लाभांश राशि तथा अंतरित अंशों, इन अंशों पर होने वाले सभी लामों सहित, यदि कोई हो, का दावा www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईइपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन तथा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकता है। सदस्य यह भी ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को कम्पनी द्वारा आईइपीएफ को अंशों के हस्तांतरण के उद्देश्य से डुप्लीकेट अंश प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार दावा न की गई लाभांश राशि और आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। कम्पनी के सभी संचार यथा-समय प्राप्त करने हेतू, अंशधारकों से अनुरोध है कि आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता (भौतिक रूप में धारित अंशो के मामले में) admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध भेजकर पंजीकृत करें एवं अंशधारक (डीमैटरियलाइज्ड रूप में धारित अंशों के मामले में) कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी(यों) से संपर्क करें।

यदि अंशधारकों को विषय—वस्त या नियमों से सम्बंधित कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी को <u>cs@shivamautotech.com</u> पर ईमेल लिख सकते या टेलीफोन नं. 0124–4698700 पर कॉल कर सकते हैं अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट -मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020; टेलीफोन नं: 011-41406149-52; ईमेल आईडीः **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** से सम्पर्क कर सकते हैं।

> कृते शिवम ऑटोटेक लिमिटेड हस्ता./-

फॉर्म नंबर सीएए-2

[धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुसार)] नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पीठ के समक्ष,

कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)/14/एनडी/2023 कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 - 232 के मामले में और निम्नलिखित के मामले में

मिडिल पाथ टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय एल-7, मेन्ज तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली - 110016

... (अन्तरक कंपनी 1/आवेदक कंपनी 1

शराज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय एल-७, मेन्ज तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली - 110016

रषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड . जिकत कार्यालय एल-7. मेन्ज तल. ग्रीन पार्क एक्सटेंशन. दिल्ली - 110016 ... (अंतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 3 परषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सचना का विज्ञापन

तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि 13 **जुलाई**, 2023 के एक आदेश ('**आदेश**') द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ('**एनसीएलटी'⁄ ट्रिब्यूनल**') की नई दिल्ली पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 **की धारा** 230-232 के तहत **मिडल पाथ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड** ('अ**न्तरक कंपनी** 1'), शिराज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड '**अन्तरक कंपनी 2') और पुरावेत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड** ('<mark>अन्तरिती कंपनी') और उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार के समामेलन के ठहराव क</mark> योजना ('**योजना**') पर विचार करने, और यदि उपयक्त समझा जाए तो तो संशोधन के साथ या बिना अनमोदन के उददेश्य के लिए अन्तरिती कंपनी के इक्विटी

शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है। सेवी/एमसीए द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्रों के साथ पठित उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है, नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त बैटक नीचे उल्लिखित कार्यकम के अनुसार वीडियो कॉन्स्नेंसिंग ('बीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी और पात्र पतिभागियों से निर्धारित समय बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है

अंतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों की अनसची

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	बैठकों का दिन तथा तिथि	बैठकों का समय	बैठकों का स्थान	रिमोट ई-वोटिंग की अवधि
1.	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, ०९ सितम्बर, २०२३	11:30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)	पंजीकृत कार्यालय, वीसी के माध्यम से बैठकों का मान्य स्थान	प्रारम्भ : 06 सितम्बर, 2023 को 09:00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) समापन : 08 सितम्बर, 2023, 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.)

व्याख्यात्मक बयानों और अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ उपरोक्त बैठक की सुचना अन्तरिती कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई है, जिनके नाम कंपनी / डिपॉजिटरी / रजिस्टार और टांसफर एजेंट द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में 04.08.2023 तक दर्ज हैं। नोटिस 07.08.2023 को ईमेल या करियर (जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं थी) के माध्यम से भेजे गए हैं।

यदि अन्तरिती कंपनी के किसी शेयरधारक की ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, तो वे आगे के अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए अन्तरिती कंपनी के आरटीए से info@masserv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। उपर्युक्त बैठक के प्रयोजन के लिए, अन्तरिती कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए **नेशनल सिक्योरिटी**ज

डिपॉजिटरी लिमिटेड ('**एनएसडीएल**') को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग का उपयोग करके इक्विटी शेयरधारकों को वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा बैठक से पहले (**रिमोट ई-वोटिंग सुविधा**) के साथ-साथ बैठक के समय (ई-वोटिंग सुविधा) प्रदान की जाएगी। हालाँकि, बैठक से पहले रेमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि यानी **शनिवार**, 02 **सितंबर**, 2023 तक दर्ज हैं। कोई इक्विटी शेयरधारक जिसने बैठक से पहले वोट डाला है, वह वीसी के माध्यम से बैठक में भाग भी ले सकता है, लेकिन बैठक के दौरान दोबारा वोट करने का हकदार नहीं होगा।

(क) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश; (ख) बैठक की तारीख पर ई-वोटिंग; और (ग) वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने की जानकार बैठक के नोटिस में दी गई है और यह अन्तरिती कंपनी की वेबसाइट यानी<u>www.purshottaminvestofin.in</u> पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के साथ तहत उक्त नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य अनुलग्नकों के साथ ठहराव की योजना की प्रतियां अन्तरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से सभी कार्यदिवसों में 11.00 **बजे पूर्वा**. (**भा.मा.स.) से 5.00 बजे आप. (भा.मा.स**.) के बीच बैठक की तिथि तक निःशूल्क प्राप्त की जा सकती हैं और यह कंपनी की वेबसाइट <u>www.purshottaminvestofin.in</u> पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सचना बीएसई लेमिटेड की वेबसाइट <u>www.bscindia.com</u> पर भी उपलब्ध है। चूंकि अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें वर्चअल मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों की कोई भौतिक उपस्थित नहीं होगी। तदनुसार, बैठक के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा पलब्ध नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य **सभ्री पल्लवी म्हाजा** प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई-400013, ईमेल: <u>evoting@nsdl.co.in,</u> टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 224430 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य <mark>श्री शरवन मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड</mark>, आरटीए से <u>info@masserv.com</u> पर या **टेलीफोन नम्बर** : 011-26387281/82/83 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

माननीय अधिकरण ने उपरोक्त सभी बैठकों के लिए**श्री मिलन सिंह नेगी**, अधिवक्ता को **अध्यक्ष, श्री परविन्द्र नौटियाल,** अधिवक्ता एवं कंपनी सचिव को वैकल्पिक अध्यक्ष और **सुश्री पूजा, कंपनी सचिव** को संवीक्षक नियुक्त किया है।

यदि उपरोक्त बैठकों में योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ की आगामी मंजरी के अधीन होगी।

श्री मिलन सिंह नेगी दिनांक: 7 अगस्त. 2023 उपरोक्त बैठक के लिए माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

दिनांकः 7 अगस्त 2023 प्रीति शर्मा कम्पनी सचिव स्थान : गुरुग्राम स्थानः नई दिल्ली